

केन्द्रीय विद्यालय आई.आई.आई. टी. झलवा, इलाहाबाद

दिनांक : १०/०८/२०१७

संस्कृत सप्ताह समारोह : प्रतिवेदन

(दिनांक 05/08/2017 से 10/08/2017)

संस्कृत जहाँ भारतीय संस्कृति की संवाहिका है वहीं संस्कृत का पठनपाठन एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है - । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्टरूप से उद्घोषित किया है कि, संस्कृत के पठनपाठन के अभाव में - - भारतीयता का स्रोत सूख जाएगा । सन् ५७ के संस्कृत आयोग ने केवल भारत ही नहीं अपितु वैश्विक ज्ञान के सन्दर्भ में संस्कृत के महत्त्व को दिग्दर्शित किया है । वैश्विक स्तर पर डेलॉससमिति के शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन का मूल आधार संस्कृत ही रहा है । यूनेस्को के एक शैक्षिक प्रतिवेदन का शीर्षक 'Learning to be' का आधार संस्कृत का मूलवाक्य 'मनुर्भव' ही है । इस सम्पूर्ण सन्दर्भ की दृष्टि से का संस्कृतशिक्षण को प्रभावी बनाने में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का एक विशिष्ट स्थान है ।

संस्कृत भाषा के प्रति जनसामान्य की रुचि एवं रुझान विकसित करने के लिए के.वि.सं. द्वारा शुरू किए गए प्रयास के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर दिनांक 04/08/2017 से 10/08/2017 तक संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत हमारे केन्द्रीय विद्यालय ट्रिपल आई. आई. टी. झलवा इलाहाबाद में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अत्यधिक उत्साह के साथ अपनी भागीदारी देते हुए विद्यालय स्तर पर मनाए गए संस्कृत सप्ताह समारोह के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सप्ताह पर्यन्त चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में सर्वप्रथम संस्कृत सप्ताह समारोह के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमान ए. चौधरी द्वारा संस्कृत भाषा की आवश्यकता एवं देश के विकास में इसकी भूमिका पर विचार प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने भी संस्कृत वाङ्मय की व्यापकता पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विद्यालय के संस्कृत भाषा के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक श्री ए. बी. दिवेदी द्वारा संस्कृत भाषा के गौरवशाली इतिहास का रेखांकन करते हुए इसके महत्त्व को विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उपस्थित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार श्लोक पाठ, संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कथा-कथन, समूहगीत, निबंध लेखन, नाट्य मंचन इत्यादि अलग-अलग प्रतियोगिताओं का सप्ताह-पर्यंत आयोजन किया गया। दिनांक 10/08/2016 को समापन समारोह में प्राचार्य द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरित किए गए। अंत में विद्यालय के संस्कृत शिक्षक श्रीमान ए. बी. दिवेदी ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में संस्कृत शब्दों का अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित करते हुए इस सफल आयोजन के लिए प्राचार्य, सभी शिक्षक साथी, पुस्तकलयाध्यक्ष श्री मती माधुरी रावत एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

धन्यवाद

(विजयेश पाँडे)

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय ट्रिपल आई टी , झलवा,

इलाहाबाद

संस्कृत सप्ताह समारोह के सन्दर्भ में संस्कृत संवर्धन के लिए केन्द्रीय विद्यालय आई आई आई टी झलवा इलाहाबाद के छात्रों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का सजीव आयोजन किया गया, जो इस प्रकार हैं -



केन्द्रीय विद्यालय आई.आई.आई.टी. झलवा, इलाहाबाद
वाराणसी-सम्भागः

संस्कृत सप्ताह समारोह

“जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्”
(श्रावणपौर्णिमा-संस्कृतदिवसः)



संस्कृत सप्ताह शुभारम्भ



प्रातः कालीन सभा



प्रातः कालीन सभा समूह गान



संस्कृत सप्ताह उद्घोषणा



श्लोक वाचन



संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता(वरिष्ठ वर्ग)



संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता(कनिष्ठ वर्ग)



संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता



संस्कृत एकांकी



निबंध लेखन



कथा- कथन



कथा प्रदर्शन



विजेता - कथा कथन



परिणाम उद्घोषणा
वरिष्ठ शिक्षक



संस्कृत शिक्षक उद्बोधन